

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जून 2019 — ज्येष्ठ 22, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के पास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2019

निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति)  
आदेश 2019

क्रमांक एफ-68-1/तीन(दो)/न.पा./नि.व्य.ले.सं.प्र./2019/750. — यतः, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

और यतः, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-क के अन्तर्गत यथास्थिति, नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक् और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाएं;

और यतः, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-ख और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-ख के अन्तर्गत यथास्थिति, नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करे;

और यतः, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में धन-बल की अनिष्टकारी भूमिका से अच्छी तरह अवगत है और उसे रोकने के लिये अन्य उपायों के साथ-साथ यह आवश्यक और वांछनीय मानता है कि अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा यथाशक्य व्यापक और वास्तविक व्यय को प्रतिबिम्बित करने वाला हो;

अतः छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-क के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के संविधान एवं उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये, पूर्व में जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2012 (क्र. एफ-15/रानिआ/न.पा./नि.व्य.ले.सं.प्र./2012/989 दिनांक 04 अगस्त 2012) को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित आदेश करता है :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2019 है।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।
  - (3) यह "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. **परिभाषाएं और अभिव्यक्ति-** इस आदेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);
  - (ख) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में अध्यक्ष के पद के लिये कराए जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है ;
  - (ग) "उप-कंडिका" से अभिप्रेत है उस कंडिका की उप-कंडिका, जिसमें यह शब्द आता है ;
  - (घ) "कंडिका" से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका ;
  - (ङ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में अध्यक्ष के पद के लिये कराए जाने वाला निर्वाचन ;
  - (च) "निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कराए जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है तथा जिसने निर्वाचन नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है ;
  - (छ) "निर्वाचन व्यय" से अभिप्रेत है किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय, जो उसके नाम निर्दिष्ट होने और निर्वाचन परिणाम की घोषणा तारीख के बीच, (जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं) किया गया है;
  - (ज) "प्रोफार्मा" से अभिप्रेत है इस आदेश के साथ संलग्न कोई प्रोफार्मा ;
  - (झ) प्रयुक्त किये गये उन शब्दों तथा पदों का जो इस आदेश में परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में उनके लिये दिया गया है।

### 3. निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियां-

- 3.1 अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले व्ययों के लेखा में व्यय की हर एक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

**प्रोफार्मा-क :-** निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर

- (1) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था;

- (2) व्यय की प्रकृति (मद) –
  - (i) व्यय का स्वरूप (जैसे—वाहन, मुद्रण, भोजन आदि),
  - (ii) मात्रा,
  - (iii) प्रति इकाई दर ;
- (3) व्यय की राशि (रूपयों में) –
  - (i) जिसका भुगतान किया गया है ;
  - (ii) जो अभी बकाया है ;
- (4) भुगतान की गई राशि के मामले में –
  - (i) भुगतान पाने वाले का नाम और पता
  - (ii) भुगतान की गई राशि के मामले में वाउचर की तारीख एवं क्रम संख्या ;
- (5) बकाया राशि के मामले में –
  - (i) बकाया राशि भुगतान किये जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता,
  - (ii) बिल की क्रम संख्या एवं तारीख ;
- (6) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि ;
- (7) राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत रकम एवं राजनैतिक दल का नाम ;
- (8) अन्य व्यक्ति/दल/संस्था/संघ/निकाय/किसी अन्य (पूरा नाम व पता लिखें) द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि ;
- (9) अभियुक्ति, यदि कोई हो;

**प्रोफार्मा-क-1 :-** निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का नकद पंजी

- (1) प्राप्ति –
  - (i) तारीख,
  - (ii) अन्य व्यक्ति/दल/संस्था/संघ/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा पता, जिससे राशि प्राप्त की गई,
  - (iii) रसीद क्रमांक,
  - (iv) रकम (राशि),
- (2) भुगतान –
  - (i) प्राप्तकर्ता का नाम और पता,
  - (ii) रसीद की क्रम संख्या एवं दिनांक,
  - (iii) व्यय की प्रकृति,
  - (iv) राशि,

(3) बकाया राशि के मामले में –

(i) वह स्थान, जहां पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखी गई है) तो नाम तथा बकाया राशि का उल्लेख करें,

(4) अभियुक्ति, यदि कोई हों – सारणी के स्तंभ (7) में उल्लेखित कोई व्यय जिसका सारणी के प्रोफार्मा क के स्तंभ (2) में उल्लेख नहीं है, को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

**प्रोफार्मा-क-2 :-** निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का बैंक पंजी

(1) प्राप्ति –

(i) तारीख,

(ii) व्यक्ति/दल/संघ /संगठन/अन्य कोई व्यक्ति जिससे प्राप्त रकम बैंक में जमा की गई,

(iii) नकद/चेक संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा,

(iv) रकम (राशि),

(2) भुगतान –

(i) प्राप्तकर्ता का नाम और पता,

(ii) चेक संख्या,

(iii) व्यय की प्रकृति,

(iv) राशि,

(3) बकाया राशि के मामले में –

(i) वह स्थान, जहां पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखी गई है) तो नाम तथा बकाया राशि का उल्लेख करें,

(4) अभियुक्ति, यदि कोई हों – सारणी के स्तंभ (7) में उल्लेखित कोई व्यय जिसका सारणी के प्रोफार्मा क के स्तंभ (2) में उल्लेख नहीं है, को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

3.2 व्यय की हर मद के लिये वाउचर तब के सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तदरूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है।

3.3 प्रोफार्मा-क-1 व प्रोफार्मा-क-2 की मद 2 (i) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होगी जिनके लिए उप-कंडिका 3.2 के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किए गए हैं।

3.4 नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के एक दिन पूर्व अनिवार्यतः एक पृथक बैंक खाता खोला जाए। निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय उक्त खाते से ही किए जाए। इसीप्रकार निर्वाचन से संबंधित समस्त प्राप्तियां भी उक्त खाते में ही जमा की जाएंगी।



4. **निर्वाचन व्ययों के दिन-प्रतिदिन के लेखे का संधारण-** (1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर प्रोफार्मा-क, प्रोफार्मा-क-1, प्रोफार्मा-क-2 के अनुसार रजिस्टर में जो कि नाम निर्दिष्ट होने के तत्काल पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदत्त किया जाएगा, संधारित किया जाएगा।
- (2) उप-कंडिका (1) में संदर्भित रजिस्टर में आय/व्यय के हर मद की विशिष्टियां दिन-प्रतिदिन उसी कालक्रम के अनुसार दर्ज की जाएंगी जिसमें व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया है और रजिस्टर के साथ व्यय से संबंधित वाउचर या देयक (बिल) भी संधारित किए जाएंगे।
5. **निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे का अभिलेख निरीक्षण के लिये पेश किया जाना-** (1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर, संबंधित वाउचरों तथा देयकों के साथ, किसी भी समय, रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर, तत्काल निरीक्षण के लिये पेश किया जाएगा और ऐसा करने में असफलता को अभ्यर्थी की ओर से इस आदेश का अनुपालन करने में एक गंभीर चूक माना जाएगा।
- (2) नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर (प्रोफार्मा-क, प्रोफार्मा-क-1, प्रोफार्मा-क-2) की क्रमानुसार जांच की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 2 बार अभ्यर्थी के व्यय लेखा रजिस्टर की जांच की जाएगी। प्रथम बार अभ्यर्थी के नाम वापसी करने के चार दिवसों के भीतर एवं दूसरी बार मतदान की तिथि के दो दिवस पूर्व व्यय लेखा रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर/प्रेक्षक यदि आवश्यक समझे तो वह उपरोक्त के अलावा भी किसी अभ्यर्थी को व्यय लेखा रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेंगे।
6. **निर्वाचन व्ययों का सार विवरण-** निर्वाचन परिणामों की घोषणा के शीघ्र पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन व्ययों का एक सार विवरण "प्रोफार्मा-ख" के भाग-एक में अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी, भाग-दो में अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का एक सार विवरण एवं भाग-तीन में अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों का सार तैयार करेगा, जिसमें सूचीबद्ध विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल व्यय दर्शाया जाएगा।
7. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना-** (1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा।
- (2) निर्वाचन व्ययों का लेखा, निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-
- (क) कंडिका 4 में संदर्भित निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, मूल रूप में;
- (ख) निर्वाचन व्ययों के लेखा रजिस्टर "प्रोफार्मा-क", "प्रोफार्मा-क-1", "प्रोफार्मा-क-2" में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित वाउचर, और

- (ग) कंडिका 6 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का सार विवरण।
- (3) निर्वाचन व्ययों का दिन-प्रतिदिन का लेखा-रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए गए हैं, तो उन्हें दाखिल किए जाने के पहले, अभ्यर्थी द्वारा अधिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा वाउचर भी प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- (4) निर्वाचन व्ययों के लेखा के साथ प्रोफार्मा-ग में एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ-पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा।
8. **लेखा के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना-** जिला निर्वाचन अधिकारी उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा कंडिका 7 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अन्दर एक सूचना, जिसमें -
- (क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है ;
- (ख) अभ्यर्थी का नाम, और
- (ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखे का निरीक्षण किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट होगी, अपने सूचना-फलक पर लगवाएगा।
9. **लेखे का निरीक्षण और उसकी प्रतियां प्राप्त करना-**कोई व्यक्ति दस रुपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखे का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त निर्धारित करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार होगा।
10. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चय-**(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के लिये अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर एक रिपोर्ट भेजेगा :-
- (क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पूरा पता ;
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं, और यदि किया है तो वह तारीख जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, और
- (ग) क्या उसकी राय में ऐसा लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर और रीति में दाखिल किया गया है या नहीं।
- (2) जहां कि जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

- (3) जिला निर्वाचन अधिकारी उप-कंडिका (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।
- (4) निर्वाचन आयोग उप-कंडिका (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित हैं, दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं।
- (5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों की अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि उसे असफलता के लिये, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-ग या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-ग के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए।
- (6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उप-कंडिका (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिये अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उस विषय की बाबत लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेज सकेगा।
- (7) जिला निर्वाचन अधिकारी उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अन्दर अभ्यावेदन की प्रति ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, आगे उपयुक्त कार्यवाही के लिए निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

#### 11. अनुदेश तथा निर्देश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति— निर्वाचन आयोग —

- (क) इस आदेश के किसी उपबन्ध को स्पष्ट करने के लिये ;
- (ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो ; और
- (ग) किसी ऐसी विशेष स्थिति जिसके बारे में इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या इस आदेश में विद्यमान उपबंध अपर्याप्त है और निर्वाचन आयोग की राय में ऐसे अनुदेश अथवा निर्देश जारी करना आवश्यक हैं ;

समुचित अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सकेगा।

(ठाकुर राम सिंह)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
छत्तीसगढ़

निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर  
महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन

- [illegible]

टीप:— जो लागू न हों उसे काट दें।

3. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम .....

4. जिला .....

बकाया राशि के मामले में		अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/ प्राधिकृत रकम	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत रकम एवं राजनैतिक दल का नाम	अन्य व्यक्ति/दल/संस्था/संघ/ि नकाय/किसी अन्य (पूरा नाम व पता लिखें) द्वारा उपगत/प्राधिकृत रकम	अभियुक्ति
बकाया राशि भुगतान किये जाने व्यक्ति का नाम व पता	देयक/रसीद की क्रम संख्या एवं दिनांक				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

14क/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32क, के अंतर्गत निर्वाचन में मेरा/मेरे निर्वाचन

.....  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का नकद पंजी महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन

1. अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पूरा पता .....
  2. राजनैतिक दल का नाम यदि कोई हो .....
- (नामांकन की तिथि से निर्वाचन परिणाम के घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियों सहित)

तारीख	प्राप्ति			भुगतान			
	अन्य व्यक्ति/दल/संस्था/संघ/निकाय/किसी अन्य जिससे रकम प्राप्त की गई	रसीद क्रमांक	रकम	प्राप्तकर्ता का नाम और पता	रसीद की क्रम संख्या एवं दिनांक	व्यय की प्रकृति	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14क/छत्तीसगढ़ संधारित उपगत या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का यह पूर्ण और सत्य लेखा है।

टीप:- जो लागू न हों उसे काट दें।

3. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम .....
4. जिला .....
5. निर्वाचन अभिकर्ता का नाम और पता .....

बकाया राशि के मामले में	अभियुक्ति
वह स्थान, जहां पर या जिस व्यक्ति के पास बकाया राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान में/व्यक्ति के पास है) तो नाम एवं उपलब्ध बकाये का उल्लेख करें	सारणी के स्तंभ (7) में उल्लेखित कोई व्यय जिसका सारणी के प्रोफार्मा क के स्तंभ (2) में उल्लेख नहीं है, को स्पष्ट किया जाना चाहिए
(9)	(10)

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32क, के अंतर्गत निर्वाचन में मेरा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा

.....  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का बैंक पंजी

## महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन

1. अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पूरा पता .....
2. राजनैतिक दल का नाम यदि कोई हो .....
3. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम .....  
(नामांकन की तिथि से निर्वाचन परिणाम के घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियों सहित)

तारीख	प्राप्ति			भुगतान			
	अन्य व्यक्ति/दल/संस्था/संघ/निकाय/किसी अन्य जिससे प्राप्त रकम बैंक में जमा की गई	नकद/चेक संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा	रकम	प्राप्तकर्ता का नाम और पता	चेक संख्या	व्यय की प्रकृति	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14क एवं द्वारा संधारित उपगत या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का यह पूर्ण और सत्य लेखा है।

टीप:- जो लागू न हों उसे काट दें।



4. जिला .....
5. निर्वाचन अभिकर्ता का नाम और पता .....
6. बैंक का नाम .....
7. बैंक का पता .....
8. खाता क्रमांक .....

बकाया राशि के मामले में	अभियुक्ति
वह स्थान, जहां पर या जिस व्यक्ति के पास बकाया राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान में/व्यक्ति के पास है) तो नाम एवं उपलब्ध बकाये का उल्लेख करें	सारणी के स्तंभ (7) में उल्लेखित कोई व्यय जिसका सारणी के प्रोफार्मा क के स्तंभ (2) में उल्लेख नहीं है, को स्पष्ट किया जाना चाहिए
(9)	(10)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32क के अंतर्गत निर्वाचन में मेरा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता

.....  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## निर्वाचन व्यय का सार विवरण महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन

भाग-एक – अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी

1. अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पूरा पता .....
2. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम .....
3. जिला .....
4. परिणाम घोषणा की तारीख .....
5. निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता .....
6. यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, .....  
तो राजनैतिक दल का नाम .....
7. क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है ? .....

भाग-दो – अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र	व्यय की मद	मात्रा/ संख्या	व्यय की राशि	भुगतान की तारीख/ तारीखें	व्हाउचर/ व्हाउचरों की क्रम संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि)					
2	निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों की खरीद					
3	प्रचार कार्यालय (किराया, बिजली, पानी, फर्नीचर, टेलीफोन आदि पर व्यय सहित)					
4	घोषणा-पत्र वैयक्तिक जीवन वृत्त/पूर्व वृत्तान्त पोस्टर, पैम्पलैट्स, हैंडबिल्स आदि की छपाई (मुद्रण) तथा उन्हें वितरित करना या भेजना					
5	(i) दिवालों पर लिखाई, पोस्टर चिपकाना (ii) इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मिडिया/टी.वी./ केबल नेटवर्क आदि से प्रचार करना (iii) सोशल मीडिया जैसे ब्लक, एस.एम.एस., फेसबुक, वाट्स-अप, इंस्टाग्राम, ट्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से प्रचार करना					
6	बैनर/पताका, झंडे, कट-आउट, होर्डिंग्स आदि बनवाना और उन्हें प्रदर्शनार्थ लगाया जाना					
7	बैज, निर्वाचन प्रतीक चिन्ह के नमूने/आकृतियां मतदाता परिचय पर्चियां (मतदान केन्द्र का स्थान और निर्वाचक नामावली में मतदाता का क्रमांक दर्शाने वाली पर्चियां) आदि बनाना और उन्हें वितरित करना/भेजना					

क्र	व्यय की मद	मात्रा/ संख्या	व्यय की राशि	भुगतान की तारीख/ तारीखे	व्हाउचर/ वाउचरों की क्रम संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	जनसभाएं – (i) उद्घोषणा (एलान/प्रचार) (ii) जनसभा के स्थानों का किराया (iii) कुर्सियां, दरियां, लाउडस्पीकर आदि (iv) आडियो/वीडियो कैसेट बनाना, बजाना या दिखाना (v) रोशनी, सजावट, फूलमालाएं, पेयजल आदि					
9	सार्वजनिक रैली					
10	विज्ञापनों का प्रकाशन					
11	अति विशिष्ट व्यक्तियों (व्ही.आई.पी.) के दौरे (ठहरना, परिवहन और आतिथ्य-सत्कार)					
12	स्वागत द्वार (गेट), मेहराब आदि बनाना और उनकी सजावट					
13	उपयोग में लाये गये वाहन का किराया और उनके परिचालन हेतु पेट्रोल (पी.ओ.एल) आदि— (i) अभ्यर्थी द्वारा (ii) निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा (iii) मतदान अभिकर्ताओं द्वारा (iv) गणना अभिकर्ताओं द्वारा					
14	भोजन/जलपान की लागत या मेहनताना— (i) निर्वाचन अभिकर्ता के लिये (ii) मतदान अभिकर्ताओं के लिये (iii) गणना अभिकर्ताओं के लिये (iv) सामान्य कार्यकर्ताओं/समर्थकों/घर-घर जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिये					
15	मतदान केन्द्रों के बाहर, मतदाताओं को परिचय पर्विया देने के लिये बूथलगाना, वहां पर तैनात कार्यकर्ताओं के लिये जलपान की लागत/मेहनताना, कुर्सियां और मेजों के किराया आदि सहित					
16	रेल या सार्वजनिक परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय/पार्टी कार्यालय की यात्राएं					
17	अन्य मद (उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त)					
कुल योग						

## भाग-तीन – अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार –

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	स्वयं की निधि	
2	राजनैतिक दल से नकदी या चेक इत्यादि से प्राप्त एकमुश्त राशि	
3	अन्य व्यक्ति/दल/संस्था/संघ/निकाय/किसी अन्य इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि	
कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन में, मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मदवार उपगत (किये गये) या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का यह पूर्ण और सत्य विवरण है।

.....  
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .  
नाम .....

प्रोफार्मा-ग

जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला ..... के समक्ष

## शपथ-पत्र

मैं ..... सुपुत्र/पत्नी/पुत्री ..... आयु ..... वर्ष  
निवासी ..... इसके द्वारा  
विधिवत/सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नानुसार कथन/घोषणा करता/करती हूँ :-

1. यह कि मैं नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत ..... के निर्वाचन में, जिसका परिणाम (तारीख) ..... को घोषित हुआ था, महापौर/अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था/थी।
2. यह कि मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तारीख ..... (जिस तारीख को मैं नाम निर्देशित हुआ) एवं जिस तारीख को परिणाम घोषित हुआ, दोनों तारीखों को शामिल करते हुए दोनों तारीखों के बीच की अवधि का, उपरोक्त निर्वाचन के संबंध में मेरे द्वारा स्वयं/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय का पृथक् और सही लेखा रखा था।
3. यह कि उक्त प्रयोजन के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा विहित और प्रदाय किये गये रजिस्टर में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रखा गया था जो कि संबंधित वाउचरों/देयकों के साथ संलग्न है।
4. यह कि मेरे निर्वाचन व्ययों के लेखा में मेरे स्वयं या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत/उपगत निर्वाचन व्यय की सभी मदें शामिल हैं एवं कुछ भी किसी भी प्रकार से छिपाया या रोका/दबाया/छोड़ा नहीं गया है।
5. यह कि उक्त प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण निर्वाचन व्ययों के लेखा का सार विवरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रोफार्मा में तैयार किया गया है और उसकी एक सत्य प्रति संलग्न है।
6. यह कि उक्त पैरा 1 से 5 तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

हस्ताक्षर

तारीख ..... को (स्थान) ..... पर श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
द्वारा मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से ली गई शपथ/प्रतिज्ञान ली गई।

मुहर

हस्ताक्षर

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/पब्लिक  
नोटरी

## **The Election Expenditure (Maintenance and Lodging of Account) Order, 2019**

Raipur, the 12th June 2019

### **THE ELECTION EXPENDITURE (MAINTENANCE AND LODGING OF ACCOUNT) ORDER, 2019**

No. F-68-1/Three(Two)/N.P./E.E.M.L.A./2019/750. — Whereas the superintendence, direction and control of all elections to Municipalities in the State of Chhattisgarh are vested in the State Election Commission by the Constitution of India;

AND, WHEREAS, section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) cast an obligation on every candidate at an election of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal council or a Nagar Panchayat, as the case may be, to keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent with such particulars as may be prescribed by the State Election Commission;

AND, WHEREAS, section 14-B of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) cast another obligation on every contesting candidate at an election of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal council or a Nagar Panchayat, as the case may be, to lodge within thirty days from the date of election, with the officer notified by the State Election Commission of his election expenditure ;

AND, WHEREAS, the State Election Commission is deeply aware of the pernicious role of money power in elections and deems it necessary and expedient to curb it, inter alia, by ensuring that the account of election expenditure to be lodged by a candidate is, as far as possible, comprehensive and reflective of the actual expenditure ;

NOW, THEREFORE, in exercise of its powers conferred by Article 243-ZA of the Constitution of India read with section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, in order to make the provisions of the constitution of India and the said acts more effective, the State Election Commission, In supersession of the Election Expenditure (Maintenance and Lodging Account) Order 2012 (No. F-15/SEC/NP/E.E.M.A./2012/989 dated 04 August 2012) issued earlier, hereby makes the following order :-

1. **Short title, extent, application and commencement** - (1) This order may be called the Election Expenditure (Maintenance and Lodging of Account) order, 2019.
- (2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.
- (3) It shall come into force on the date of publication in the Chhattisgarh Gazette.

**2. Definitions and interpretation-** In this order, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (NO. 37 of 1961), as the case may be ;

(b) 'Candidate' means a person who has been duly nominated as a candidate at an election to the office of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal Council or a Nagar Panchayat ;

(c) 'Sub-paragraph' means a sub-paragraph of the paragraph in which the word occurs ;

(d) 'Paragraph' means a paragraph of this order ;

(e) 'Election' means an election to the office of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal Council or Nagar Panchayat ;

(f) 'Contesting candidate' means a person who has been duly nominated as a candidate at an election to the office of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal Council or Nagar Panchayat and who has not withdrawn his candidature within the period specified in the election rules ;

(g) 'Election expense' means any expenditure incurred or authorized by a candidate or his election agent in connection with an election during the period between the dates on which he has been nominated and the date on which result thereof has been declared (both days inclusive) ;

(h) 'Proforma' means a 'Proforma' appended to this Order ;

(i) The words and expressions used, which have not been defined in this Order shall carry the meaning assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (NO. 37 of 1961) or the Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, as the case may be.

### **3. Particulars of account of election expenditure-**

3.1 The account of election expenditure to be kept by a candidate or his election agent under the Act shall contain the following particulars in respect of each item of expenditure, namely :-

**Proforma-A :- Register of day to day account of election expenditure**

- (1) date on which the expenditure was incurred or authorized ;
- (2) nature of expenditure (item) -
  - (i) pattern of expenditure (For example vehicle, printing, meal etc.) ;
  - (ii) quantity ;
  - (iii) per unit rate ;

- (3) amount of the expenditure (In Rupees) -
  - (i) amount paid ;
  - (ii) amount outstanding ;
- (4) for amount paid –
  - (i) name and address of payee ;
  - (ii) date and serial number of vouchers of amount paid ;
- (5) for amount outstanding -
  - (i) name and address of person to whom the amount outstanding is payable ;
  - (ii) date and serial number of bill of amount ;
- (6) amount incurred/authorized by candidate or his election agent ;
- (7) amount incurred/authorized by political party and name of political party ;
- (8) amount incurred/authorized by other individual/party/institute/association /body/any other (mention full name and address) ;
- (9) remarks, if any.

**Proforma-A-1 :- Cash Register for Maintenance of Day to Day Election Expenditure**

- (1) receipt -
  - (i) date ;
  - (ii) name and address of other individual/party/institute/association/ body/any other from whom the amount received ;
  - (iii) receipt no. ;
  - (iv) amount ;
- (2) payment -
  - (i) name and address of payee ;
  - (ii) serial no. and date of receipt ;
  - (iii) nature of expense ;
  - (iv) amount ;
- (3) for amount outstanding -
  - (i) place at which or person with whom the balance is kept (if cash is kept at/with more than one place/person) mention name and amount outstanding ;
- (4) remarks, if any - any expenditure mentioned in column (7) of this table and not mentioned in column (2) of proforma-A should be clarified here.



**Proforma-A-2 :- Bank Register for Maintenance of Day to Day Election Expenditure**

- (1) receipt -
  - (i) date ;
  - (ii) name and address of individual/party/institute/body/any other from whom the amount received;
  - (iii) cash/cheque no., bank name and branch ;
  - (iv) amount ;
- (2) payment -
  - (i) name and address of payee ;
  - (ii) cheque no.;
  - (iii) nature of expense ;
  - (iv) amount ;
- (3) for amount outstanding -
  - (i) place at which or person with whom the balance is kept (if cash is kept at/with more than one place/person) mention name and amount outstanding ;
- (4) remarks, if any - any expenditure mentioned in column (7) of this table and not mentioned in column (2) of proforma-A should be clarified here.

3.2 A voucher shall be obtained for every item of expenditure unless from the nature of the case, such as postage, travel by rail and the like, it is not practicable to obtain a voucher.

3.3 It shall not be necessary to give the particulars, mentioned in item 2 (i) of Proforma-A-1 and Proforma-A-2, in regard to items of expenditure for which vouchers have not been obtained under sub-paragraph (3.2).

3.4 Compulsorily a bank account shall be open on a day before from date of filing of nomination paper. All election related expenditure shall be made from this account. Likewise all receipt related to election shall be deposited in this account.

**4. Manitenance of day ot day account of election expenditure-** (1) the account of election expenditure shall be maintained by a candidate or his election agent from day to day, in a register in Proforma-A, Proforma-A-1 , Proforma-A-2, which shall be supplied to him by the Returning Officer immediately after his nomination.

(2) The particulars of every item of receipt/expenditure shall be entered in the register referred to in sub-paragraph (1), from day to day in the same chronological order in which the expenditure is incurred or authorised and the vouchers or bills relating to the expediture shall be maintained along with the register.

**5. Production of the record of day to day account of election expenditure for inspection-**

(1) The register of day ot day account of election expenditure together with the supporting vouchers and bills shall be produced for inspection at any time during the process of election, by the candidate or his election agent, on demand by the Returning Officer, the District Election Officer or an Observer or Officer authorised by the Election Commisssion in this behalf, forthwith and failure to do so shall be deemed to be a major default on the part of the candidate to comply with this order.

(2) Inspection of Register for election expenditure (Proforma-A, Proforma-A-1, Proforma-A-2) for Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat should be done serially. During election process register for expenditure of candidate should be inspected twice. It should be compulsory to produced register for inspection firstly, within four days from the date of withdrawl of candidature and secondly, before two days from the poll day. Apart from above if District Election Officer/Returning Officer/Observer consider necessary, then, he may issue direction to any candidate for the inspection of register for election expenditure.

**6. Abstract statement of election expenditure-** Soon after declaration of the result of election every contesting candidate or his election agent shall prepare an abstract statement of election expenditure in part-1 information related to candidate, in part-2 abstract of election expenditure of candidate, in part-3 abstract of sources of amount of expenditure made by candidate of Proforma B, clearly showing the total expenditure on various items listed therein.

**7. Lodging of the account of election expenditure-** (1) Every contesting candidate or his election agent shall lodge the account of election expenditure with the District Election Officer, within the time specified in the Act, that is, thirty days from the date of election.

(2) The account of election expenditure shall comprise the following documents, namely:-

- (a) the register of day to day account of election expenditure referred to in paragraph 4 in original,
- (b) vouchers related to the entries made in the register Proforma-A, Proforma-A-1, Proforma-A-2 of election expenditure, and
- (c) abstract statement of election expenditure, referred to in paragraph 6.

(3) The register of day to day account of election expenditure and the abstract statement of election expenditure shall be authenticated ans countersigned by the candidate in case they have been prepatad and signed by his election agent and the vouchers shall also be countersigned by him, before being lodged.

(4) The account of election expenditure shall be accompanied by an affidavit of the candidate in proforma-C and shall not be regarded as complete without such an affidavit.

**8. Notice by District Election Officer for inspection of account-** The District Election Officer shall, within two days from the date on which the account of election expenditure has been lodged by a candidate under Paragraph 7 cause a notice to be affixed to his notice board, specifying –

- (a) the day on which the account has been lodged ;
- (b) the name of the candidate, and
- (c) the time and place at which such account can be inspected.

**9. Inspection of account and the obtaining of copies thereof-** Any person shall, on payment of a fee of ten rupees be entitled to inspect any such account and on payment of such fee as may be fixed by the Election commission in this behalf, be entitled to obtain attested copies of such account or any part thereof.

**10. Report by the District Election Officer as to the lodging of the account of election expenditure and the decision of Election Commission thereon-** (1) As soon as may be after the expiration of the time specified in the Act for the lodging of the account of election expenditure the District Election Officer shall send a report to the Election Commission about every contesting candidate, on the following points :-

- (a) The name of the contesting candidate with full postal address ;
- (b) Whether such candidate has lodge his account of election expenditure and if so, the date on which such account has been lodge ; and
- (c) Whether in his opinion such account has been lodged within the time and in the manner required by the Act and this Order.

(2) Where the District Election Officer is of the opinion that the account of election expenditure of any contesting candidate has not been lodge in the manner required by the Act and his Order, he shall with every such report forward to the Election Commission the account of election expenditure of that candidate.

(3) Immediately after the submission of the report referred to in sub-paragraph (1) the District Election Officer shall publish a copy thereof by affixing the same to his notice board.

(4) As soon as may be after the receipt of the report referred to in sub-paragraph (1) the Election Commission shall consider the same and decide whether any contesting candidate has failed to lodge the account of election expenditure within the time and in the manner required by and Act and this Order.

(5) Whether the Election Commission decides that a contesting candidate has failed to lodge his account of election expenditure within the time and in the manner required by and Act and this Order, it shall by notice in writing call upon the candidate to show cause why he should not be disqualified under section 14-C of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or section 32-C of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as the case may be, for the failure.

(6) Any contesting candidate who has been called upon to show cause under sub-paragraph (5), may within fifteen days of the receipt of such notice submit in respect of the matter a representation in writing to the Election Commission and shall at the same time send to the District Election Officer a copy of his representation.

(7) The District Election Officer, within five days of the receive thereof, forward to the Election Commission the copy of the representation with such comments as he wishes to make thereon.

**11. Power of Election Commission to issue instruction and directions-** The Election Commission may issue appropriate instructions or directions –

- (a) for the clarification of any provision of this Order ;
- (b) for the removal of any difficulty which may arise in relation to the implementation of any such provision ; and
- (c) for any special situation to which, there is no provision or existing provisions in this Order are insufficient and in the opinion of the Election commission, it is necessary, to issue such instructions or directions.

(Thakur Ram Singh)  
State Election Commissioner  
Chhattisgarh

**Proforma-A****REGISTER OF DAY TO DAY ACCOUNT OF ELECTION EXPENDITURE****ELECTION OF MAYOR/PRESIDENT**

1. Name of the candidate with full postal address .....
- .....
2. Name of the political party .....
- .....

Date of Expenditure /event	Nature of Expenditure (item)			Amount of Expenditure (In Rupees)		In case of amount paid	
	Pattern of expenditure	Quantity	Per unit rate	Paid	Outstanding	Name and address of payee	Date and serial No. of Voucher
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that this is a true account kept by me/my election agent under section 14A of 1961

3. Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat

from which contested .....

4. District .....

In case of amount outstanding		amount incurred/authorized by candidate or his election agent	amount incurred/authorized by political party and name of political party	amount incurred/authorized by other individual/party/institute/association /body/any other (mention full name and address)	Remarks
Name and address of person to whom the amount outstanding is payable	Date and serial No. of Bill				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and section 32A of Chhattisgarh Municipality Act,

.....  
Signature of the Contesting Candidate

**Proforma-A-1****Cash Register of Day to Day Election Expenditure**

1. Name of the candidate with full postal address .....

2. Name of the Political Party .....

(from the date of nomination to the date of declaratoion of result of election, both dates inclusive)

Date	Receipt			Name and Address of Payee
	Name and address of other individual/party/institute/association /body/any other from whom the amount received	Receipt No.	Amount	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Certified that this is a true account kept by me/my election agent under section 14A of 1961

3. Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat

from which contested .....

4. District .....

5. Name and Address of Election Agent .....

Payment			Balance Amount	Remarks if any
serial no. and date of receipt	Nature of expenditure	Amount	place at which or person with whom the balance is kept (if cash is kept at/with more than one place/person) mention name and amount outstanding	any expenditure mentioned in column (7) of this table and not mentioned in column (2) of proforma-A, should be clarified here
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and section 32A of Chhattisgarh Municipality Act,

.....

Signature of the Candidate



**Proforma-A-2****Bank Register for Day to Day Election Expenditure**

1. Name of the Candidate .....
2. Name of the Political Party .....
3. Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat  
from which contested .....

(from the date of nomination to the date of declaratoion of result of election, both dates inclusive)

Date	Receipt		
	Name and address of individual/party/institute/body/any other from whom the received amount deposited in Bank	Cash/cheque no. , Bank Name and Branch	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)

Certified that this is a true account kept by me/my election agent under section 14A of

4. Date of Declaration of Result .....
5. Name and Address of Election Agent .....
6. Name of Bank .....
7. Branch Address .....
8. Account No. ....

Payment				Balance Amount	Remarks if any
Name and address of Payee	Cheque No.	Nature of expenditure	Amount	place at which or person with whom the balance is kept (if cash is kept at/with more than one place/person) mention name and amount outstanding	any expenditure mentioned in column (7) of this table and not mentioned in column (2) of proforma-A, should be clarified here
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and section 32A of Chhattisgarh Municipality Act, 1961

.....  
Signature of the Candidate

**Proforma-B.**

## ABSTRACT STATEMENT OF ELECTION EXPENDITURE

### ELECTION OF MAYOR/PRESIDENT

**Part-1 - Information related to candidate**

1. Name and full address of the candidate .....
2. Name of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat .....
3. District .....
4. Date of election .....
5. Name and address of election agent .....
6. If candidate is set-up by political party then name of political party .....
7. Whether political party is a recognized party .....

**Part-2 - Abstract of election expenditure of candidate**

S.No.	Item of Expenditure	Quantity/ Number	Amount of Expenditure	Date(s) of payment	Serial No./Nos. of voucher/s etc.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Security deposit					
2.	Purchase of copies of electoral roll					
3.	Campaign office/s (including expenditure on rental, water, electricity, furniture, telephone etc.)					
4.	Printing & distribution or dispatch of : manifesto, personal history/curriculum vitae posters, pamphlets, hand bill etc.					
5.	(i) Wall writing, pasting of posters (ii) Campaigning through Electronic/print media/T.V./Cable Network (iii) Campaigning through Social media, like bulk SMS, facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Internet					
6.	Preparation and display of banners, flags, cut-outs, hoardings etc.					
7.	Preparation and distribution of badge, election symbol prototypes and voter identity slips (showing the place of polling station and the S.No. of the voter in the Electoral roll etc.)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Public meetings :- (i) announcement /propaganda. (ii) hiring charges of places of public meetings. (iii) chairs, durries, public address system etc. (iv) Play/Recording of audio/video cassettes, photography/videography. (v) Illumination & decoration, garlands, drinking water etc.					
9.	Public Rally					
10.	Publication of advertisements.					
11.	Visits of VIP's (Accommodation, transport and hospitality).					
12.	Construction and decoration of gates and arches					
13.	Hiring charges and POL on vehicles used by :- (i) the candidate (ii) by election agent (iii) by polling agents (iv) by counting agents					
14.	Remuneration/cost of food/refreshment given to :- (i) election agent (ii) polling agents (iii) counting agents (iv) general workers/supporters/workers visiting house-to-house					
15.	Setting up of booths outside the polling station to issue voter identity slips, including expenditure on remuneration /cost of refreshment given to the workers posted there, hire charges of tables and chairs etc.					
16.	Journeys to Party/District Election Office by rail or any Other mode of public transport.					
17.	Other items (other than those listed above)					

**Part-3 - Abstract of sources of amount of expenditure made by candidate**

S.No.	Discription	Amount
1.	Self amount	
2.	Amount received from political party as cash and through cheque	
3.	Loan, gift, donation received from individual/party/institute /body/any other in total	

Certified that this is a complete and correct statement of item wise election expenditure incurred or authorized by me or my election agent, at the election mentioned above.

.....

Signature of the Contesting Candidate

**Proforma-C**

BEFORE THE DISTRICT ELECTION OFFICER, DISTRICT .....

**AFFIDAVIT**

I ..... Son/wife/daughter of .....  
aged ..... years r/o ..... do hereby.

Solemnly and sincerely state and declare as under :-

1. That I was a contesting candidate at the election to the office of Mayor/President of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar panchayat ..... the result of which was declared on .....

2. That I/My election agent kept a separate and correct account of all expenditure in connection with the above election incurred or authorized by me or by my election agent between ..... (the date on which I was nominated) and the date of declaration of the result thereof, both days inclusive.

3. That the day-to-day account of all election expenditure was maintained in the register prescribed and supplied by the State Election Commission for the purpose and the same is annexed hereto, with the supporting vouchers/bills mentioned in the said account.

4. That the account of my election expenditure as annexed herto includes all items of election expenditure incurred or authorized by me, by my election agent, by political party who set-up me, by other organization/bodies of persons who supported me and by other individuals nothing has been concealed or withheld/suppressed/omitted there from.

5. That an Abstract Statement of Account of all election expenditure has been prepared in the proforma prescribed by the State Election commission for the purpose and a true copy thereof is annexed hereto.

6. That the statement in the foregoing paragraph 1 to 5 are true to my personal knowledge, that nothing is false and nothing material has been concealed or withheld or suppressed or omitted.

.....  
Deponent

Solemnly affirmed/sworn by ..... at (Place) .....  
this day of ..... before me.